



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 330]
No. 330]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 1982/श्रावण 15, 1904
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1982/SRAVANA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1982

कां०आ० 555 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० कां०आ० 621 (अ), तारीख 14 अगस्त, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(1) भाग क में, क्रम सं० 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“14. औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित औषधियाँ और भेषज जो विदेशी मूद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के कार्यक्षेत्र के भीतर आती हैं:

(क) उच्च औद्योगिकी प्रपुंज औषधियों के उत्पादन के लिए आधारी प्रक्रम से साध्यमिक औषधि; और

(ख) आधारी प्रक्रम से उच्च औद्योगिकी प्रपुंज औषधियाँ और उन पर आधारित सूत्रीकरण प्रपुंज औषधि के संतुर्ण उद्योग के अनुपात सहित (अपने विनिर्माण में) 1:5 के सभी ओतों के सूत्रीकरण तक।”;

(2) भाग ख में, क्रम सं० 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

“16. भारतीय कम्पनियों द्वारा जिनके अन्तर्गत औद्योगिक उपकरण भी हैं, उत्पादित औषधियाँ और भेषज जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) के कार्यक्षेत्र के भीतर आती हैं, प्रपुंज औषधियों के उत्पादन के मूल्य और सूत्रीकरण के बीच संपूर्ण 1:10 के अनुपात सहित सभी प्रपुंज औषधियाँ और सूत्रीकरण।”

[कां०सं० 14/27/80-एल०पी०]

एस०एल० कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:

अधिसूचना सं० कां०आ० 621 (अ) तारीख 14 अगस्त, 1980 का इससे पूर्व अधिसूचना सं० कां०आ० 123 (अ) तारीख 21 फरवरी, 1981 और अधिसूचना सं० कां०आ० सं० 299 (अ) तारीख 3 मई, 1982 द्वारा संशोधन किया गया था।

(Department of Industrial Development)

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 1982

S.O. 555(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments

in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 621(E), dated the 14th August, 1980, namely :—

In the said notification, in the Schedule,—

(1) In Part A, for S. No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"14. Drugs and Pharmaceuticals produced by the industrial undertakings which fall within the purview of Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) :

(a) Drug intermediates from the basic stages for production of high technology bulk drugs ; and

(b) high technology bulk drugs from the basic stage and formulations based thereon with an overall ratio of bulk drug consumption (from own-manufacture) to formulations from all sources of 1:5."

(2) In Part B, for S. No. 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"16. Drugs and Pharmaceuticals produced by the Indian companies including the industrial undertakings which fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) :

All bulk drugs and formulations with an overall ratio of 1:10 between the value of production of bulk drugs and formulations."

{File No. 14/27/80-LP}

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

NOTE

Notification No. S.O. 621(E), dated the 14th August, 1980 was earlier amended by notification No. S.O. 123(E), dated 21st February, 1981 and notification No. S.O. No. 299(E), dated 3rd May, 1982.